

प्रेषक,

जी०पी० कमल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 9 मार्च, 2018

विषय- डा० सुनील त्यागी पुत्र श्री रमेश चन्द्र त्यागी, गढ बस स्टेण्ड स्याना जनपद-
बुलन्दशहर के गोदाम किराया वृद्धि के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० ले०शा०/643/401/98/गो० किरा०/बुलन्दशहर,
दिनांक 14-07-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा डा० सुनील
त्यागी पुत्र श्री रमेश चन्द्र त्यागी, गढ बस स्टेण्ड स्याना जनपद-बुलन्दशहर के गोदाम
किराया वृद्धि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा० सुनील त्यागी पुत्र श्री रमेश
चन्द्र त्यागी के जनपद बुलन्दशहर के केन्द्र गढ बस स्टेण्ड स्याना पर स्थित गोदाम किराये
में वृद्धि करते हुए दिनांक 01-04-2012 से 31-3-2017 तक किराया रू० 32846.00 (रू०
बत्तीस हजार आठ सौ छियालीस मात्र) प्रति माह भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि
प्रश्नगत गोदाम हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो
उसका उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर
ली जाय।

4- उक्त मद में होने वाला वयय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान
सं०-21 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-
101-अधिप्रापित तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं समपूर्ति के नामे डाला
जायेगा।

5- उक्त गोदाम के किराया वृद्धि की स्वीकृति को अन्य प्रकरणों के लिये दृष्टांत नहीं
माना जायेगा।

--/2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- यह आदेश प्रशासकीय विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जी०पी० कमल)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम सी०ए०एस०एस०।।टी०ए०डी० कोआर्डिनेशन 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ संभाग मेरठ।
- 5- डा० सुनील त्यागी पुत्र श्री रमेश चन्द्र त्यागी, गढ बस स्टेण्ड स्याना जनपद- बुलन्दशहर।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी०पी० कमल)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।